



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

क्रमांक -RVRS/Purchase/2021/78

दिनांक: 5/08/2021

E - NIT No. 07/2021

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा में खेलकूद सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति हेतु पंजीकृत व अनुभवी बोलीदाता/संवेदक से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> व <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।


क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभुति	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	समयावधि
1	खेलकूद सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति	रु. 19.00 लाख	रु. 00/-	रु. 2000/-	रु. 500/-	12 माह

### Important dates

S.No.	Events	Date & Time	Location/Website
A	Documents download/sells started date and times	10.08.2021 from 06.00 PM	<a href="http://sppp.rajasthan.gov.in">http://sppp.rajasthan.gov.in</a> <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a> <a href="http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara">http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara</a>
B	Last date and time of payment of Tender fee, Bid security & RISL Processing fee	Upto Last date and time of Bid submission	<a href="http://egrass.raj.nic.in">http://egrass.raj.nic.in</a> <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>
C	Last date and time of Bid submission	24.08.2021 upto 11.00 AM	<a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>
D	Opening of Bid	24.08.2021 at 02:00 PM	<a href="http://eproc.rajasthan.gov.in/">http://eproc.rajasthan.gov.in/</a> OFFICE OF THE PRINCIPAL AND CONTROLLER, MEDICAL COLLEGE BHILWARA
E	Pre-Bid Meeting	17.08.2021 At 11.00 A.M.	OFFICE OF THE PRINCIPAL AND CONTROLLER, MEDICAL COLLEGE BHILWARA

**Note:- Tender fee, Rs. 2000/- & Processing fees Rs. 500/- Total Rs. 2500/- must be deposited in college bank account name PRINCIPAL AND CONTROLLER MEDICAL COLLEGE BHILWARA in STATE BANK OF INDIA BHILWARA EVENING BRANCH BHILWARA (RAJ.) Saving A/c Number 36227901467 IFSC Code SBIN0007364. Scan copy of paid amount must be uploaded online in technical bid. (for detail procedure refer terms & condition of tender document.)**

NIB NO.....

  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक  
आर.वी.आर.एस. मेडिकल कॉलेज  
भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार


कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

## Instruction to Bidders:-

1. A pre-bid meeting will be held on Date 17.08.2021 at 11 AM in Medical College Bhilwara for seeking clarification on the tender conditions if any interested bidders are advised to participate in the pre-bid meet and survey the institute and offer.
2. Bid shall be submitted online only through website <http://eproc.rajasthan.gov.in>.
3. No physical/offline bid shall be accepted.
4. The cost of Bid Fee shall be Rs. 2000.00 (non refundable)
5. **Note:- Tender fee, Rs. 2000/- & Processing fees Rs. 500/- Total Rs. 2500/- must be deposited in college bank account name PRINCIPAL AND CONTROLLER MEDICAL COLLEGE BHILWARA in STATE BANK OF INDIA BHILWARA EVENING BRANCH BHILWARA (RAJ.) Saving A/c Number 36227901467 IFSC Code SBIN0007364. Scan copy of paid amount must be uploaded online in technical bid. (for detail procedure refer terms & condition of tender document.)**
6. Rate should only be quoted in INR.
7. Rate should only be quoted online in Price bid (BOQ).
8. Rate should be quoted inclusive of all taxes and charges. No payment other than rate quoted shall be paid to the bidder.
9. Technical and financial Bid should be submitted separately in cover 1 and cover 2 respectively only through website <http://eproc.rajasthan.gov.in>.
10. The undersigned has right to accept or reject any bid partly or fully without assigning any reason at any time prior to award of contract.
11. All pages of tender document should be digitally signed and stamp by the bidder and should be submitted along with technical bid as having read the tender document and agree with the terms & Condition, technical specification, destinations for supply etc otherwise bid shall be liable for rejection.
12. Conditional bid will be treated as unresponsive and it may be rejected.
13. Instruction to Bidders for online e-Bidding
  - a. The bidders who are interested in bidding can download Bid documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in> and [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in)
  - b. Bidders who wish to participate in this Bid will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>. Further Bidders who wish to participate in online Bids will have to procure Digital Certificate as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders are advised to refer the orders issued by the Finance Department, Government of Rajasthan vide F.1(1)FD/GF&AR/2007(Circular No.19/2011) dated 30.09.2011 for getting aware with e-Bidding process.
  - c. Bidder shall submit their offer on-line in Electronic format on above mentioned web site up to time and date mentioned here in above.
14. Before electronically submitting the Bids, it should be ensured that all the Bid papers including conditions of contract are digitally signed by the Bidder.
15. The Bid should be accompanied with latest GST Certificate from the concerned department authorities, without which the Bids may not be entertained.
16. No conditional Bids shall be accepted and will be rejected summarily forthwith.
17. The department will not be responsible for any delay on account of late submission of Bid.




राजस्थान-सरकार


कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

18. All pages and schedule of Bid document shall be essentially filled in (where ever required) and should be digitally signed by the Bidder.
19. The acceptance of the Bid will rest with the competent authority who does not bind itself to accept the lowest Bid, and reserves to it-self the authority to reject any or all the Bids received without assigning any reason.
20. No refund of Bid fee is claimable for Bids not accepted or forms not submitted.
21. All other provisions of RTPP act 2012 and rules 2013 there to shall be applicable for the procurement.
22. Provisions of GF&AR, circular , notification and direction of finance department of Rajasthan/RajMES Jaipur/Concern Department shall also be applicable.
23. In case of other dispute legal jurisdiction will be Bhilwara only.

  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक  
आर.वी.आर.एस. मेडिकल कॉलेज  
भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001




01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in


## Technical Bid (Envelop 1)

### Eligibility Criteria

S. N.	Particulars	Details
1.	Name and full address of Bidder with Contact No., E-Mail ID	Upload Covering letter on bidders letter head.
2.	proof of payment of <b>Tender fee &amp; RISL Processing fee</b>	upload scan copy of dully paid in Saving Bank A/c as per Instruction to Bidders sr. no. 4
3.	PAN No.	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
4.	GST Registration Certificate	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
5.	Drug Licence Certificate (Optional)	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
6.	Tender document dully digitally signed and stamped	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
7.	Self undertaking of not blacklisting certificates	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
8.	Experience Certificate of having successfully completion of similar work issued by any Government Department.	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
9.	Dully filled & signed Annexure A,B,C,D	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
10.	S.R. 11	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
11.	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित तथा स्व-हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो गत 3 वित्तीय वर्षों [2018-19, 2019-20 व 2020-21] में औसत टर्न ओवर 15.00 लाख से अधिक का हो, आवश्यक है।	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
12.	निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का बॉन्ड, मेक, पेम्पलेट तथा सामग्री का समस्त तकनीकी विवरण संलग्न किया जाना आवश्यक है।	Upload Copy of Documents in online Technical Bid
13.	Bid Securing Declaration Form on 50/- NJ stamp self attested	Upload Copy of Documents in online Technical Bid

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक  
आर.वी.आर.एस. मेडिकल कॉलेज  
भीलवाड़ा



## —:: निविदा की मुख्य शर्तें ::—


निविदा दाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए और निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करनी चाहिए किसी भी निविदा दाता को निविदा सूचना में वर्णित किसी भी शर्त की व्याख्या के विषय में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए संदेह की स्थिति में कमेटी का निर्णय अंतिम होगा और सभी को मान्य होगा।

1. जीएसटी प्रमाण पत्र संख्या TAN/PAN No की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदा प्रारूप स्याही से भरे या अंकित करें। पेंसिल से भरी गई निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ओवरराइटिंग काट छांट ना करें। एक बार लिखित दर में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में अलग-अलग अंकित करें एवं दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर करें।
3. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ और अंत में निविदा के समस्त नियमों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करें।
4. धरोहर राशि के बिना प्राप्त विलंबित दरों से प्राप्त एवं निर्धारित प्रारूप से अलग प्रपत्र पर प्रस्तुत एवं सशर्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. वर्णित की गई दरें समस्त व्ययों, अनुषांगिक प्रभारों सहित प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा के लिए प्रस्तुत की जावे।
6. जीएसटी नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
7. विधि मान्यता- निविदाएँ निविदा सूचना में लिखित अवधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
8. निविदादाता किसी अन्य अभिकरण को अपना कार्य उसका कोई भी भाग उप पट्टे पर नहीं देगा।
9. निरीक्षण- प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि/समिति द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की आदेश में वर्णित स्पेसिफिकेशन नमूने के अनुसार भौतिक जांच की जाएगी। आपूर्ति सामग्री के निरीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तु को प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
10. परिदानकालावधि- सफल निविदा दाता कार्यदेश की दिनांक से दस दिवस के भीतर सामग्री प्रदान करने हेतु व्यवस्था करेगा समय पर सामग्री प्रदान में असफल रहने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमों के अनुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि की गई वसूली की जाएगी। वर्तमान बाजार एवं वैशविक परिस्थितियों के मद्देनजर सामग्री आपूर्ति अवधि में कय समिति की अभिशंसा पर अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।
11. मात्रा की सीमा - आवश्यकतानुसार मात्रा में आदेश दिए जाएंगे निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु बाध्य होगा। निविदादाता ना तो सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए मना कर सकेगा ना ही किसी विशेष मात्रा की आपूर्ति के लिए मांग कर सकेगा।



12. करार तथा कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप- सफल निविदा दाता को ₹ 500/- के नॉन जुडिशल स्टॉप पर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि का कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। उक्त राशि में धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
13. अमानत राशि का समर्पण - अमानतराशि का निम्नलिखित स्थितियों में समर्पण किया जा सकेगा-
  1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने की पश्चात किंतु निविदा स्वीकृति के पूर्व निविदा वापिस ले लेता है तो प्रस्ताव को उपरांतरित कर देता है।
  2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर ही विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
  3. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
14. कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप का समर्पण - कार्य संपादन प्रतिभूति रकम का निम्नलिखित प्रकरण में पूर्णतः या अंशतः समर्पण किया जा सकेगा।
  1. संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
  2. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मर्दों की सप्लाई करने में विफल रहता है।
15. भुगतान- सामग्री के निरीक्षण करने के उपरांत संतोषप्रद सप्लाई के आधार पर सप्लाई की गई सामग्री की राशि का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।
16. वसूलिया- निर्धारित नुकसान, न्यूनप्रदाय, टूट-फूट, अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलिया सामान्यतः बिलों से की जाएगी। न्यूनप्रदाय, टूट-फूट, अस्वीकृत वस्तुओं की सीमा तक रकम भी रोकी जा सकेगी। यदि सप्लायर संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है तो निर्धारित नुकसान सहित वसूलिया विभाग में उपलब्ध उसकी बकाया से तथा कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूलिया संभव न हो तो राजस्थान लोक मांग वसूली के या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
17. निविदा दाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा-
  1. भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विवेक को एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
  2. यदि फर्म, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो क्रमांक और रजिस्टरकरण का वर्ष।
  3. एकमात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास/कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
  4. कंपनी की दशा में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।
18. निविदा दाता फर्म का स्वरूप बदलने की स्थिति में नवीन फर्मों की भी उक्त नियमों को मानने के लिए बाध्य होगी।
19. यदि संविदा के निर्वचन अर्थ तथा भाग के संबंध में संविदा में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रकरण को पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठतम अधीनस्थ को विवाद के एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाहिया यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा भीलवाड़ा में ही न्यायालयों में संस्थित की जाएगी, अन्यत्र नहीं।

*Handwritten signature/initials*



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

20. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में निविदा के संबंध में किसी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने का, किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का, किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिए निविदा दी गई है या भंडार के मदों को एक फर्म से अधिक को वितरित करने सहित सर्वाधिकार सुरक्षित हैं।
21. वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित Circular No 3/2013, Date 04-02-2013 की विभिन्न शर्तों उक्त निविदा प्रपत्र में संलग्न है, को ध्यानपूर्वक पढ़ें व उक्त अनुसरण करें। संलग्न Annexure A,B,C,D & A
22. उक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदा में राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 व नियम 2013 की सभी प्रावधान लागू होंगे।
23. इस निविदा की जानकारी वेब पोर्टल <http://sppp-raj-nic-in> & <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

उल्लेखित समस्त शर्तों से फर्म सहमत हैं, सहमति स्वरूप हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित की जा रही है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

सामग्री आपूर्ति का तकनीकी विवरण-

Sr. No.	Name Of Equipment	Quantity	Company
<b><u>VOLLYBALL</u></b>			
1	Volleyball ball(Standard size 5)	20	Spartan supervolley/etc.
2	Volleyball Cotton Nets(1stQuality)	2	Vixen/etc.
<b><u>BADMINTON</u></b>			
3	Badminton shuttle cock(Yonexmavis-300)	30Box	Yonex/Any
4	Badminton court Net	2 Piece	Cosco/Any
5	Rackets (yonex)Muscle power series-22Plus	6 Piece	Yonex/Any
<b><u>FOOTBALL</u></b>			
6	Football matchball(Standard Size)	10 Piece	Nivia/Adidas/Any
<b><u>TABLE TENNIS</u></b>			
7	Table tennis (Stag Model Championship Roll on 22 mm top)	2 Table	Stag/etc.
8	Table tennis bat (stag ninja power)	4 rackets	Stag/etc.
9	Table tennis bat (gki euro xx)	4 peace	gki/etc.
10	Table Tennis ball (stiga)	10 Packet	stiga/etc.
<b><u>ATHLETICS</u></b>			
11	Shot put girl (nelco)	1Piece	nelco/etc.
12	Shot boys (nelco)	1Piece	nelco/etc.
13	Discuss rubber 1 kg (Nelco) Girls	1Piece	nelco/etc.
14	Discuss rubber 2 kg (Nelco) Boys	1Piece	nelco/etc.
15	Relay battons different color (Nelco)	2Piece	nelco/etc.
16	Hurdles (Nelco) training steel*	10 Piece	nelco/etc.
17	Clapper	1 Piece	any
18	20m nylon rope	3 piece	any
<b><u>CRICKET</u></b>			
19	CRICKET red Tennis ball	60 piece	nivia/etc.
20	CRICKET SG TRIPLE CROWN CLASSIC (HARROW),87cm	1 piece	SG/etc.
21	CRICKET ton elite SH,86cm	5 piece	ton/etc.
22	CRICKET full kit set SG(LH)	1 set	SG/SS/TON/etc.

**Requirement for Gymnasium Hall & Yoga -**

S.No.	Specification	Equipment Name	No.	Company
1	Cardiovascular Machines	Treadmill Commerical AC Motor(8 HP/6 HP)(Standard Size)	1	Viva fitness/Sole/Any
2		Cross Elliptical trainers (Standard Size)	1	Viva fitness/Kaesun/Toppro/Any
3		Upright and recumbent bikes (Standard Size)	1	Viva fitness/Welcare/Cosco/Any
4	Heavy duty elite Olympic racks	Combo rack - half rack(Standard Size)	1	Viva fitness/Any
5		Olympic heavy-duty adjustable bench (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
6	Ground base	Ground base standing press (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
7	Stand alone	ISO-lateral front lat Pull down (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
8		Seated arm curl (Not IOS - lateral) (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
9	Racks/Storage	Bumper plate storage (Large) (Standard Size)	1	Viva fitness/Any





राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

10	Benches	adjustable Bench(for Dumbbell area) (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
11		Decline abdominal bench (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
12		Chin/dip/Leg Raise (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
13		Back extension (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
14	Bumper plates - Rubber	Standard bumper plates # 10,15,25,35,45lb. Plates # Diameter all plates are the same standard diameter	2	Viva fitness/Any
15	ISO- lateral	IOS-lateral bench press (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
16		IOS-lateral wide chest(can act as Decline Bench)(Standard Size)	1	Viva fitness/Any
17		IOS-lateral Incline press (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
18		IOS-lateral Chest/bank (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
19		Olympic squat rack (Standard Size)	1	Viva fitness/Any
20		IOS-lateral LEG press(Standard Size)	1	Viva fitness/Any

निविदा दाता के हस्ताक्षर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

(Annexure "A" to "D" as per Rajasthan Transparency in public procurement rule, 2013)

**Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall –  
not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process

- (a) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (b) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (c) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (d) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (e) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (f) disclose conflict of interest, if any; and
- (g) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.
- (h) Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a part has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid, or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid, or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Company Seal

Bidder's Authorised Signature



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

**Annexure – B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/ our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated ..... I / We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/ we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.;
3. I / we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I / we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I / we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair completion;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name :

Designation :

Address :



### Annexure C : Grievance Redressal during Procurement

The designation and address of the First Appellate Authority is Director RAJ-MES Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Sec. RAJ-MES Jaipur.

#### Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

#### (4) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

#### (5) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### (6) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Company Seal

Bidder's Authorised Signature



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

FORM NO. 1.

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .. ..... of .....

Before the ..... (First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address

2. Name and address of the respondent(s)

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal .....  
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer : .....  
.....

Place: .....

Date : .....

Appellant's Signature .....



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

#### Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)
- As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Company Seal

Bidder's Authorised Signature



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in


## SR FORM-11

### DECLARATION BY TENDERERS [See Rule 48 (vii)]

I/We declare that I am/we are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/ Authorised dealer in the goods/stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

ब्लेक लिस्टेड न होने का प्रमाण-पत्र

मैं/हम.....

शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि मुझे/हमारी संस्था .....

.....को किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया हुआ है।

यदि ऐसा पाया जाता है तो हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता





राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- [http://www.education.rajasthan.gov.in/m\\_cbhilwara](http://www.education.rajasthan.gov.in/m_cbhilwara), Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

### Form of Bid-Securing Declaration

Date  
Bid No.  
Alternative No.

To:

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- we are not the successful Bidder;
- the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- thirty days after the expiration of our Bid;
- the cancellation of the procurement process; or
- the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed: .....

Name: .....

In the capacity of: .....

Only authorized to sign the bid for and on behalf of .....

Dated on:        Day of

Corporate Seal: .....

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

**::वित्तीय निविदा::**

नोट:- दर प्रति नग जी.एस.टी. को छोड़कर डाली जानी हैं। जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार अलग से किया जावेगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	Rate	कुल राशि
<b>VOLLYBALL</b>					
1	Volleyball ball(Standard size 5)		20		
2	Volleyball Cotton Nets(1stQuality)		2		
<b>BADMINTON</b>					
3	Badminton shuttle cock(Yonexmavis-300)		30Box		
4	Badminton court Net		2 Piece		
5	Rackets (yonex)Muscle power series-22Plus		6Piece		
<b>FOOTBALL</b>					
6	Football matchball(Standard Size)		10Piece		
<b>TABLE TENNIS</b>					
7	Table tennis (Stag Model Championship Roll on 22 mm top)		2 Table		
8	Table tennis bat (stag ninja power)		4 rackets		
9	Table tennis bat (gki euro xx)		4 peace		
10	Table Tennis ball (stiga)		10Packet		
<b>ATHLETICS</b>					
11	Shot put girl (nelco)		1Piece		
12	Shot boys (nelco)		1Piece		
13	Discuss rubber 1 kg (Nelco) Girls		1Piece		
14	Discuss rubber 2 kg (Nelco) Boys		1Piece		
15	Relay battons different color (Nelco)		2Piece		
16	Hurdles (Nelco) training steel*		10 Piece		
17	Clapper		1 Piece		
18	20m nylon rope		3 piece		
<b>CRICKET</b>					
19	CRICKET red Tennis ball		60 piece		
20	CRICKET SG TRIPLE CROWN CLASSIC (HARROW),87cm		1 piece		
21	CRICKET ton elite SH,86cm		5 piece		
22	CRICKET full kit set SG(LH)		1set		
<b>Requirement for Gymnasium Hall &amp; Yoga</b>					
1	Treadmill Commerical AC Motor(8 HP/6 HP)(Standard Size)	Cardiovascular Machines	1		
2	Cross Elliptical trainers (Standard Size)		1		

*(Handwritten signature)*



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया  
मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001



☎ 01482-220139, 232641 Web site- <http://www.education.rajasthan.gov.in/mcbbhilwara>, Email :  
principal.mc.bhilwar@rajasthan.gov.in

3	Recumbent Spin Bike (Standard Size)		1		
4	Combo rack - half rack(Standard Size)	Heavy duty elite Olympic racks	1		
5	Olympic heavy-duty adjustable bench (Standard Size)		1		
6	Ground base standing press (Standard Size)	Ground base	1		
7	ISO-lateral front lat Pull down (Standard Size)	Stand alone	1		
8	Seated arm curl (Not IOS - lateral) (Standard Size)		1		
9	Bumper plate storage (Large) (Standard Size)	Racks/Storage	1		
10	adjustable Bench(for Dumbbell area) (Standard Size)	Benches	1		
11	Decline abdominal bench (Standard Size)		1		
12	Chin/dip/Leg Raise (Standard Size)		1		
13	Back extension (Standard Size)		1		
14	Standard bumper plates # 10,15,25,35,45IB. Plates # Diameter all plates are the same standard diameter	Bumper plates - Rubber	2		
15	IOS-lateral bench press (Standard Size)	ISO- lateral	1		
16	IOS-lateral wide chest(can act as Decline Bench)(Standard Size)		1		
17	IOS-lateral Incline press (Standard Size)		1		
18	IOS-lateral Chest/bank (Standard Size)		1		
19	Olympic squat rack (Standard Size)		1		
20	IOS-lateral LEG press(Standard Size)		1		

निविदा दाता के हस्ताक्षर